



मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat

Indira Gandhi Vidhan Bhawan,

Arera Hills, Bhopal (M.P.)

स मा चार

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रस्तावित सत्र पर सर्वदलीय बैठक संपन्न

भोपाल: 15 सितम्बर, 2020

आज दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को सर्वदलीय बैठक प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में प्रातः 10.00 बजे आहूत हुई। बैठक में सदन के नेता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रतिपक्ष के नेता श्री कमलनाथ, संसदीय कार्यमंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री विधायक सुश्री विजयलक्ष्मी साधौ, पूर्व मंत्री, विधायक श्री पी.सी.शर्मा, विधान सभा प्रमुख सचिव श्री ए.पी.सिंह एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मो. सुलेमान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सर्वदलीय बैठक में मुख्यतः कोविड-19 से प्रभावित 39 वर्तमान विधान सभा सदस्यों के साथ ब्यावरा विधायक श्री गोवर्धन सिंह दांगी के निधन को देखते हुये विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि कोविड-19 के चलते विधान सभा का प्रस्तावित सत्र आवश्यक वित्तीय एवं विधायी कार्य सीमित उपस्थिति के साथ संपन्न होगा। 21 सितम्बर को जिसमें निधन उल्लेख सहित शासकीय कार्य किये जावेंगे। दिनांक 21-22-23 के दिवस के प्राप्त प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल की सूचनाओं के उत्तर सदस्यों को लिखित रूप में प्राप्त होंगे। सत्र में दोनों पक्षों के सहमति के आधार पर उपस्थिति-गण पूर्ति करते हुये पूर्ण होगी। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये विधान सभा सचिवालय स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में कोरोना का रेपिड टेस्ट स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सभी सदस्यों के साथ विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से किया जावेगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मो. सुलेमान द्वारा कोविड-19 के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी गई।

वि.स./ज.स./20

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव

दूरभाष : जनसंपर्क शाखा: (+91-755) 2523065, 2523037, 2440223 फैक्स: (+91-755) 2440238

ई-मेल : vidhansabha-mp@nic.in वेबसाइट : <http://www.mpvdhansabha.nic.in>